

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 04 वांछित/ वारण्टी अभि०गण तथा शान्ति व्यवस्था भंग कार्यवाही के अन्तर्गत कुल 02 अभि०गण को गिरफ्तार किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन मे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक-12-11-2022 को थाना दातागंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 494/22 धारा 304 भादवि के वांछित अभियुक्त फतेहदीन उर्फ गुड्डा पुत्र रति खां नि० ग्राम अमरोली थाना दातागंज जनपद बदायूं को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा वाद संख्या 4247/2001 धारा 279/304ए/338/427 आईपीसी के वांछित अभियुक्त मानसिंह पुत्र मुंशीराम निवासी मौ० रफीक सराय थाना चांदपुर जिला बिजनौर को जोकि वर्ष 2003 विचारण वर्ष से ही फरार चल रहा था तथा जिसके सम्बन्ध मे माननीय न्यायालय द्वारा धारा 83 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुये धारा 299 द०प्र०स० के तहत मफरूर घोषित कर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी का स्थायी वारण्ट जारी किया गया था पूर्व मे इसकी गिरफ्तारी हेतु काफी प्रयास किया गया था किन्तु उक्त अभियुक्त लुक छिप कर रहता था पकडा नही जाता था कि वजीरगंज पुलिस द्वारा काफी प्रयास कर पहचान सुनिश्चित करते हुये आज दिनांक 12.11.2022 को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की है ।

थाना इस्लामनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी 1. रेशमा पत्नी शाहिद निवासी मौहल्ला पछाया कस्वा व थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं 2. अली पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला पछाया कस्वा व थाना इस्लामनगर जिला बदायूं सम्बन्धित वाद संख्या 7537/22 धारा 323/504/506/354 आईपीसी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना कुंवरगाँव पुलिस द्वारा 02 नफर अभि०गण 1. वीरेश पुत्र पुतूलाल 2. वीर सिंह पुत्र पुतूलाल निवासीगण ग्राम अर्सिस थाना कुंवरगाँव जनपद बदायूं को शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया ।

सोशल मीडिया सैल,

जनपद बदायूं ।